



केलकता पछिले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण आज यहां ईडन गार्डन्स

पर मेजबान केलकता नाइट राइडर्स और क्विंग्स इलेवन पंजाब के बीच होने वाले आईपीएल सात के पहले क्वॉलीफायर के स्थगित कर दिया गया है

यह मैच अब कल इसी मैदान पर शाम चार बजे से खेला जाएगा अगर मौसम ने साथ दिया तो अधिक से अधिक रात नौ बजे तक 10 मिनट तक पांच ओवर का मैच कराया जा सकता है

आज शाम पांच बजे 15 मिनट पर मैदानी अंपायरों नाइजेल लॉग और ए स रवि ने क्यूरेटर प्रवीर मुखर्जी के साथ परीक्षण किया सलाह मशवरे के बाद तीनों ने सर्वसम्मति से फैसला किया कि मैच संभव नहीं हो पाएगा क्योंकि मैदान कम से कम पांच ओवर के लिए भी तैयार नहीं हो पाएगा

खेलने की परिस्थितियों और आईपीएल के नियमों के अनुसार अगर पांच ओवर का मैच भी संभव नहीं होता है तो मैच के नतीजे का फैसला सुपर ओवर से किया जाएगा सुपर ओवर भी अगर संभव नहीं हो पाया तो क्विंग्स इलेवन पंजाब की टीम लीग चरण में अधिक मैच जीतने के कारण फाइनल में जगह बना लेगी पंजाब ने लीग चरण में 11 जबकि केलकता नाइट राइडर्स ने नौ मैच जीते हैं

{loadposition user13}

ऐसी स्थिति में भी हालांकि केलकता नाइट राइडर्स के फाइनल में जगह बनाने का कौश और मौका मिलेगा जब उसे 30 मई को मुंबई इंडियन्स और चेन्नई सुपरक्विंग्स के बीच होने वाले मैच के विजेता से 'लॉस मिनिटर' मैच खेलना होगा

आईपीएल के मुताबिक जनि दर्शकों ने आज के मैच के टिकट खरीदे हैं वे इसी टिकट का इस्तेमाल करके कल मैच देख सकते हैं

आईपीएल ने बयान में कहा, “आज के मैच के टिकट खरीदने वाले टिकट धारक बुधवार को अपना टिकट (बारकोड को नुक्सान नहीं पहुंचा होना चाहिए) दखाने के बाद स्टेडियम में प्रवेश कर सकते हैं। गेट दोपहर दो बजे से खुलेंगे।”

इसमें कहा गया, “दर्शकों को पैसा तभी वापस किया जाएगा जब मूल दविस पर और आरक्षित दिन भी एक भी गेंद नहीं पेंके जा सकेगी। अगर जरूरत हुई तो पैसा वापस पाने के लिए वसितृत प्रक्रिया के संदर्भ में अलग से घोषणा की जाएगी।”

ईडन गार्डन्स के पूरे मैदान पर कवर बछिा हुआ है। रविवार की दोपहर से बारिश होने के कारण मैदान मोटे कवर से ढक हुआ है और कैब ने कहा कि इसके सुखाने के लिए कम से कम छह घंटे का समय चाहिए। मैच क्ल रजिस्टर दिन तक स्थगित होने के बाद कैब के संयुक्त सचिव सुबीर गांगुली ने पत्रकारों से कहा, “यहां तक यदक्ल पूरे दिन भर धूप नहीं रहती तब भी सुबह पांच या छह घंटे तक बारिश होने पर मैदान तैयार किया जा सकता है।”

आईपीएल संचालन परिषद के भी सदस्य गांगुली ने कहा कि उन्होंने मैच रेफरी रोशन महानामा को सुझाव दिया था कि वह गेट खोलने से पहले ही आधिकारिक घोषणा कर दें ताकि दर्शकों को परेशानी नहीं उठानी पड़े।

उन्होंने कहा, “हम नहीं चाहते थे कि दर्शकों को बेमतलब की परेशानी उठानी पड़े। हम पांच-पांच ओवर के मैच के लिए इंतजार कर सकते थे लेकिन हमारे पास रजिस्टर दिन है तो फिर हम कोई जोखिम क्यों उठाएंगे।”

कैब ने पानी की नकिसी के लिए सभी तरह के बंदोबस्त कर रखे हैं। छह सुपर सोपर्स मौजूद हैं और इनमें से चार मैदान पर पानी हटाने के काम में लगे हुए थे।

कैब के पास स्टेडियम में पानी भरे जाने की दशा में उसे बाहर पेंकने की भी व्यवस्था है लेकिन बारिश सुबह थम गई। गांगुली ने कहा, “आपने देखा होगा कि मैदान पर बहुत अधिक पानी नहीं है। हमें उम्मीद है कि मौसम ऐसा ही बना रहेगा ताकि मैदान को खेल के लिए तैयार किया जा सके।”

मैदान का नरीक्षण दोपहर बाद चार बजे किया गया लेकिन गांगुली ने इससे काफी पहले ही केन्नेआर के सीईओ वेंके मैसूर और आईपीएल ल सीईओ सुंदर रमन को उसकी स्थिति से अवगत करा दिया था। गांगुली ने कहा, “यहां तक कि केन्नेआर भी पूरे 20 ओवर का मैच चाहता है और इसलिए उसने भी मैच को रजिस्टर दिन करवाने का सुझाव दिया।”

दोनों टीमों मैच स्थल पर नहीं पहुंची और केवल मैच अधिकारी ही आधिकारिक घोषणा केलयिे यहां पहुंचे।

हालांकि हजारों दर्शक स्टेडियम के बाहर कतार लगा हु थे लेकिन कोलकाता पुलिस ने जैसे ही मैच स्थगित करने की घोषणा की वे वापस लौट गंगुली ने कहा, “हम कल दोपहर बाद दो बजे गेट खोल देंगे और पूरे 20 ओवर का मैच करवाने की पूरी कोशिश करेंगे लेकिन यदि कभी गेंद नहीं डाली जाती है तो फिर दर्शकों के उनका पैसा लौटा दिया जागा ”

(भाषा)